

रोल नं०.....नाम परीक्षार्थी.....

XII-62

प्रीबोर्ड परीक्षा

A

लेखाशास्त्र - केवल प्रश्न-पत्र

समय - 3 घण्टा 15 मिनट कक्षा - 12 पूर्णांक -100

निर्देश:-प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए हैं।

नोट:- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (ii) प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है)

नोट:-निम्न प्रश्न-खण्डों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर लिखिए:-

1. रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र तैयार किया जाता है :-
 (अ) आर्थिक चिट्ठे से (ब) लाभ-हानि विवरण पत्र से
 (स) अतिरिक्त सूचनाओं से (द) इन सभी से।
2. वित्तीय विवरण पत्र प्रकट करते हैं :-
 (अ) वित्तीय सूचनाएँ (ब) अमौद्रिक सूचनाएँ
 (स) मौद्रिक एवं अमौद्रिक सूचनाएँ (द) इनमें से कोई नहीं।
3. एक ऋणपत्र धारी हकदार है :-
 (अ) निश्चित लाभांश का (ब) लाभ में भाग का
 (स) कम्पनी में मताधिकार का (द) निश्चित दर पर ब्याज का।
4. अंश पूँजी का जो भाग कम्पनी के समापन के समय माँगा जा सकता है :-
 (अ) अधिकृत पूँजी (ब) संचित पूँजी
 (स) निर्गमित पूँजी (द) अयाचित पूँजी।
5. अंश आवेदन खाता है :-
 (अ) व्यक्तिगत खाता (ब) वास्तविक खाता
 (स) नाम-मात्र का खाता (द) पूँजी खाता।
6. फर्म के समापन पर अशोध्य ऋण संचय खाते को हस्तान्तरित किया जाता है :-
 (अ) अशोध्य ऋण खाते में (ब) वसूली खाते में
 (स) साझेदारी के पूँजी खातों में (द) इनमें से कोई नहीं।
7. हरण किये गये अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है :-
 (अ) समतुल्य पर (ब) बट्टे पर
 (स) प्रीमियम पर (द) इन सभी पर।
8. एक संयुक्त पूँजी कम्पनी का पंजीकरण है :-
 (अ) अनिवार्य (ब) ऐच्छिक
 (स) अनावश्यक (द) इनमें से कोई नहीं।
9. एक निजी कम्पनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है :-
 (अ) 50 (ब) 100
 (स) 200 (द) इनमें से कोई नहीं।
10. साझेदारों के चालू खाते होते हैं :-
 (अ) वास्तविक खाते (ब) नाम-मात्र के खाते
 (स) व्यक्तिगत खाते (द) इनमें से कोई नहीं।

(पृष्ठ पलटिए)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 2 अंक, उत्तर सीमा 50 शब्द)

11. रोकड़ प्रवाह विवरण-पत्र के कोई दो लाभ लिखिए।
12. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य से आपका क्या अभिप्राय है?
13. वित्तीय विवरण-पत्र विश्लेषण को परिभाषित कीजिए।
14. सम्भाव्य दायित्व क्या है?
15. ऋण पत्र की कोई दो विशेषताएँ बताइए।
16. स्वेट समता अंश से क्या आशय है?
17. साझेदारी के विघटन से क्या आशय है?
18. लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं?
19. फर्म में नये साझेदार को प्रवेश दिये जाने के दो कारणों को बताइए।
20. ख्याति की कोई दो विशेषताएँ बताइए।

(लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 5 अंक- उत्तर सीमा 100 शब्द)

21. ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि क्या है?
22. ऋण-पत्र कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
23. पुनर्मूल्यांकन खाता तथा वसूली खाते में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
24. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभों का बँटवारे के सम्बन्ध में कौन से नियम लागू होंगे।
25. अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? हरण प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए।
26. लाभ-हानि नियोजन खाते का प्रारूप तैयार कीजिए।

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 10 अंक - उत्तर सीमा 150 शब्द)

27. कृष्णा और सुदामा 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते वाले साझेदार हैं।

31 मार्च, 2023 को उनका चिट्ठा निम्नांकित था:-

दायित्व	राशि (रु.)	सम्पत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार	5,280	रोकड़	3630
संचय	5,000	विनियोग	20,800
बैंक ऋण	10,000	देनदार	19,600
पूँजी		स्कन्ध	8,750
कृष्ण 60,000		फर्नीचर	2,500
सुदाना 20,000	80,000	भवन	45,000
	1,00,280		1,00,280

इस तिथि को उन्होंने फर्म का विघटन किया और विनियोगों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों रु. 69,000 में बेची। रु. 22,000 में विनियोग सुदाना ने ले लिये और उसने बैंक ऋण का भुगतान करना स्वीकार किया। लेनदारों को पूर्ण भुगतान में रु. 5,030 दिये गये। वसूली व्यय रु. 1,100 थे। फर्म की पुस्तकों को बन्द करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए।

अथवा

एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि की गणना कैसे की जाती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि के भुगतान की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए।

28. भारत लिमिटेड कम्पनी ने जिसकी अधिकृत पूँजी रु. 100 प्रति अंश वाले 20,000 अंशों में विभाजित है, 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किये जिन पर भुगतान निम्न प्रकार होना था :-
आवेदन पर रु. 25, आवंटन पर रु. 35, प्रथम याचना पर रु. 20 तथा द्वितीय एवं अन्तिम याचना पर रु. 20 प्रति अंश।
कम्पनी ने रु. 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किये। सभी आवेदन स्वीकार कर लिये गये। 200 अंशों पर प्रथम व द्वितीय एवं अन्तिम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। इन अंशों का हरण कर लिया गया और फिर इन्हें रु. 90 प्रति अंश पूर्ण चुकता की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। कम्पनी के जर्नल में लेखा कीजिए।

अथवा

- अंश और ऋण-पत्र में अन्तर बताइए।
29. निम्नलिखित सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह तैयार कीजिए :-

प्रारम्भिक रोकड़ शेष	4,50,000
अन्तिम रोकड़ शेष	88,800
वर्ष का शुद्ध लाभ	1,00,000
दीर्घकालीन ऋणों का पुर्नभुगतान	15,00,000
स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय	9,00,000
देनदारों में वृद्धि	40,500
लेनदारों में कमी	28,700
स्कन्ध में कमी	2,40,000
गैर संचालन व्यय	1,25,000
गैर संचालन आय	30,000
आयकर का भुगतान	1,27,000

अथवा

- वित्तीय विवरण पत्रों में विश्लेषण के उद्देश्य बताइए।
30. अ, ब और स एक फर्म ने बराबर के साझेदार हैं। उनका 31 मार्च, 2021 का चिट्ठा नीचे दिया हुआ है :-

दायित्व	राशि (रु.)	सम्पत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी		मशीनरी	20,000
अ 10,000		फर्नीचर	1,000
ब 8,000		देनदार	20,000
स 12,000	30,000	स्टॉक	10,000
संचय कोष	3,000		
लेनदार	18,000		
	<u>51,000</u>		<u>51,000</u>

31 मार्च, 2021 को स ने अवकाश ग्रहण किया और सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया - मशीनरी रु. 25,000, फर्नीचर रु. 800, देनदार रु. 19,000, स्टॉक रु. 9,800। ख्याति का मूल्यांकन रु. 6000 पर किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा संशोधित आर्थिक चिट्ठा बनाइए।

अथवा

भारतीय कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक कम्पनी के चिट्ठे का प्रारूप दीजिए।